



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 आश्विन 1931 (श0)  
(सं0 पटना 552) पटना, सोमवार, 19 अक्टूबर 2009

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

(निबंधन)

अधिसूचना

15 अक्टूबर 2009

सं0 I/ए<sup>2</sup>-401/2008-2660—राज्य सरकार के आरक्षण नीति में संशोधन के कारण बिहार लोक-सेवा आयोग द्वारा आयोजित 36वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर आयोग द्वारा विभिन्न सेवा संवर्गों में अनुशंसित उम्मीदवारों की नियुक्ति के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर एल0पी0ए0सं0 692/99—देवेन्द्र कुमार सिंह एवं अन्य—बनाम—राज्य सरकार एवं अन्य तथा इससे उत्पन्न एम0जे0सी0संख्या 1938/2000 में पारित न्यायादेश के आलोक में बिहार लोक-सेवा आयोग के पत्रांक 364, दिनांक 8 अप्रैल 2008 द्वारा प्राप्त संशोधित अनुशंसा सूची के अनुसार विभिन्न सेवा संवर्गों में पूर्व की अनुशंसा के आधार पर नियुक्त एवं पदस्थापित 27 (सत्ताईस) पदाधिकारियों के सेवा संवर्ग में परिवर्तन हुआ है, जिनमें से एक पदाधिकारी श्री उदयकान्त मिश्र, बिहार निबंधन सेवा संवर्ग में नियुक्ति हेतु अनुशंसित किये गये हैं।

2. उपर्युक्त अवमाननावाद में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश तथा बिहार लोक-सेवा आयोग द्वारा प्राप्त संशोधित अनुशंसा सूची के आलोक में राज्य सरकार ने सेवा संवर्ग में परिवर्तन के फलस्वरूप बिहार निबंधन सेवा संवर्ग के लिए अनुशंसित श्री मिश्र की नियुक्ति बिहार निबंधन सेवा में करने का निर्णय लिया है।

3. अतः राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में श्री उदयकान्त मिश्र, अनुक्रमांक 34718, आरक्षण कोटि—सामान्य (01) जो बिहार नियोजन सेवा में नियुक्त एवं पदस्थापित हैं, को उनके द्वारा धारित वर्तमान

सेवा संवर्ग में प्रथम नियुक्ति की तिथि से तत्समय प्रवृत्त बिहार निबंधन सेवा के मूल कोटि के वेतनमान रु0 2200-75-2800-100-4000 में नियुक्त किया जाता है।

4. बिहार निबंधन सेवा संवर्ग में नियुक्त श्री मिश्र की आपसी वरीयता बिहार लोक-सेवा आयोग द्वारा प्राप्त संशोधित अनुशंसा सूची के मेधा क्रम के अनुसार होगी। बिहार निबंधन सेवा में इनकी वरीयता का निर्धारण तथा तदनुसार अन्य लाभ प्रदान करते हुए वेतन निर्धारण से संबंधित आदेश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

5. श्री मिश्र इस पत्र प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर पूर्व धारित पद से विरमन पत्र के साथ अपना योगदान निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (निबंधन) में समर्पित करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अर्जुन प्रसाद,

सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 552-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>